

कक्षा - 4

पाठ - 10 [थप्प रोटी थप्प दाल]

कठिन शब्द

1. उत्साह
2. पुकारती
3. मक्खन
4. बनवाएंगे
5. साग -सब्जी
6. हांडी
7. अभिनय
8. रंगमंच
9. बिठाकर
10. दौड़कर
11. म्याऊँ
12. स्वाद
13. तरकारी
14. मटकाते

15. बढिया
16. कलछी
17. सहेलियां
18. डालियाँ
19. पंक्तियाँ
20. फैलाकर
21. आश्चर्य
22. प्रवेश
23. आलसियों
24. चिल्लाती
25. घबराई
26. छींके
27. प्रकट
28. चौंककर
29. टांग -पसार
30. प्रयत्न

वचन -बदलो

1. दोना -दोने
2. पैसा -पैसे
3. तस्वीर -तस्वीरें
4. जूता -जूते
5. चप्पल -चप्पलें
6. पोथी -पोथियां
7. रात -रातें
8. कागज -कागजें

शब्द -अर्थ

1. उत्साह -उमंग
2. पुकारकर -आवाज लगाकर
3. अभिनय -नाटक
4. बड़ियाँ -खाने की वस्तु
5. डलिया- टोकरी
6. अचानक -एकदम
7. झट से - जल्दी से
8. छींके -दूध या दही टाँगने की जगह

9. सरपट -सीधे
10. आश्चर्य -हैरानी
11. टांग पसार -बेफिक्र
12. प्रयत्न -कोशिश /प्रयास

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1.नाटक का नाम थप्प रोटी ,थप्प दाल क्यों है ?

उत्तर -नाटक का नाम थप्प रोटी और थप्प दाल इसीलिए है क्योंकि इस नाटक में बच्चे रोटी और दाल बनाने का अभिनय करते हैं !

प्रश्न 2.नीना ,चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती है ?

उत्तर -नीना ,चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसीलिए बनवाना चाहती है क्योंकि वह जानती है की लड़के रसोई का काम नहीं जानते इसीलिए वह उनको परेशान करना चाहती है !

प्रश्न 3.बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी होंगी ?

उत्तर -बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में इसीलिए रखी होंगी ताकि उन तक कोई पहुँच ना सके !

प्रश्न 4. चुन्नु ने दाल को पहले खट्टा और बाद में मीठा क्यों बताया ?

उत्तर -चुन्नु लड़कियों को चिड़ाना चाहता था ,इसीलिए उसने दाल को पहले खट्टा और बाद में मीठा बताया !

इन शब्दों को परिभाषित करें :-

बिलोना -जब हम किसी चीज को मथानी से बिलोते हैं ,तो उसे बिलोना कहते हैं !

घोलना -जब हम किसी चीज को दूसरी तरल चीज में मिलाते हैं ,तो उसे घोलना कहते हैं !

फेंटना-जब हम किसी चीज गाढ़ी चीज को चम्मच या उंगली से हिलाते /मिलाते है ,तो उसे फेंटना कहते है !